

क्या आपके कोई सवाल हैं? (800) 232-1700 पर कॉल करें

साइडकिकि

आपके मोबाइल मेडिकल अलर्ट
के साथ शुरूआत करना



अपने डविाइस को चार्ज करना

बेहतरीन परिणामों के लिए,
अपने साइडककि को हर रात चार्ज करें।



जब आपको अपना साइडककि मलि जाए तो उसके चार्जगि करैडल को आउटलेट में लगा दें। एसओएस हेल्प बटन आगे की ओर रखते हुए साइडककि को करैडल में रखें। सुनश्चिति करें कि चार्जगि शुरू करने के लिए आपका साइडककि चार्जगि करैडल में मज़बूती से दबा हुआ है। ठीक से चार्ज होने पर, करैडल पर **लाल** रौशनी चालू हो जाएगी और साइडककि "चार्जगि" की घोषणा करेगा।

साइडककि पूरी तरह से चार्ज होने पर, करैडल पर **लाल** रौशनी बंद हो जाएगी।



सुनश्चिति करें कि करैडल के पछिले हसिसे पर मौजूद तार मज़बूती से अपनी जगह पर है।

क्या आपके कोई सवाल हैं?

(800) 232-1700 पर कॉल करें

अपने डविाइस को जानें

बटन



साइडकिक को शॉवर में पहना जा सकता है लेकिन इसे पानी में नहीं डुबोना चाहिए।



वॉइस अलरूट को चालू/बंद करने के लिए साइलेंट बटन को दो बार दबाएं।

क्या आपके कोई सवाल हैं?

(800) 232-1700 पर कॉल करें

लाइट्स

अपने डिवाइस की जाँच करना



स्टेटस लाइट

जब साइडककि ठीक से कार्य कर रहा होता है तब रौशनी **हरे रंग में** चमकती है।

लोकेशन लाइट

जब लोकेशन सर्विस उपलब्ध होती है तब रौशनी **नीले रंग में** चमकती है।

पावर लाइट

आपके साइडककि को चार्ज करना चाहिए जब बजिली की रौशनी **लाल रंग में चमकती है।**



टैस्ट बटन

अपने साइडककि की जाँच करने के लिए, अपने साइडककि के कनिरे पर मौजूद टैस्ट बटन को दबाकर रखें। आपको हमारे टैस्ट सेंटर से जोड़ दिया जाएगा।



ध्यान दें

बेहतरीन परिणामों के लिए, अपने साइडककि की हर महीने जाँच करें।

क्या आपके कोई सवाल हैं?

(800) 232-1700 पर कॉल करें

आपातकालीन स्थिति में

यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो हेल्प बटन को तब तक दबाकर रखें जब तक आपको कंपन महसूस न हो या एक्टिविटी होने की आवाज़ सुनाई न दे।



महत्वपूर्ण ग़लती से होने वाले एक्टिविशन को रद्द करने के लिए, संकेत मिलने पर हेल्प बटन दबाएँ और छोड़ें।



गरिने का पता लगाना (फॉल डिटिक्शन) (वैकल्पिक)

जनि डविाइसों में गरिने का पता लगाने की सुविधा चालू है, यदि आप हेल्प बटन दबाने में असमर्थ हैं और गरिने का पता चलता है, तो डविाइस, देखभाल वशिषज्ञ को आपातकालीन स्थिति में गरिने की चेतावनी भेजता है।

बेहतरीन परिणामों के लिए, अपने हेल्प बटन को लैनयार्ड पर तथा अपने सभी कपड़ों के बाहर पहनें।

गरिने का पता लगाने (फॉल डिटिक्शन) गरिने का 100% पता नहीं लगा पाता। यदि संभव हो तो, उपयोगकर्ताओं को सहायता की आवश्यकता होने पर हमेशा अपना बटन दबाना चाहिए।


क्या आपके कोई सवाल हैं?

(800) 232-1700 पर कॉल करें

बंद/चालू करना


आपको अपना साइडकिकि हमेशा चालू रखना चाहिए।
यदि आपको अपना साइडकिकि **बंद** करना है तो दबाएं और
टैस्ट एवं हेल्प बटन को तब तक एकसाथ **पकड़कर** रखें
जब तक आपको कंपन न महसूस होने लगे।

डविाइस की सभी लाइटें एक मिनट के भीतर बंद हो जानी
चाहिए।



क्या आपके कोई सवाल हैं?

अपने साइडकिकि को फिर से **चालू** करने के लिए आप टैस्ट
और हेल्प बटन को एक साथ दबा सकते हैं या डविाइस
को चार्जिंग क्रैडल में रख सकते हैं।



(800) 232-1700 पर कॉल करें

**हम सहायता के लिए यहां उपलब्ध हैं।
(800) 232-1700 पर कॉल करें
सहायता के लिए।**

यह डविडस काम करने के लिए सेलुलर कवरेज पर निर्भर है।
जहां सेलुलर कवरेज सीमित है, आपको डविडस की क्षमता में कमी आ सकती है।